



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2457]
No. 2457]नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2010/अग्रहायण 12, 1932
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2010/AGRAHAYANA 12, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2010

सं. 11 (आर ई-2010)/2009-2014

विषय : दालों के निर्यात पर निषेध-मालदीव गणतंत्र को
60 मी. टन दालों के निर्यात पर छूट के संबंध में।

का.आ. 2895(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, अधिसूचना संख्या 35/2009-2014 दिनांक 30 मार्च, 2010 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 15 (आर ई-2006)/2004-2009, दिनांक 27 जून, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अधिसूचना संख्या 15 (आर ई-2006)/2004-2009 दिनांक 27 जून, 2006 द्वारा, दालों के निर्यात पर निषेध लगाया गया था, जिसे प्रारंभ में 6 माह की अवधि के लिए लगाया गया था और वर्तमान में इसे अधिसूचना संख्या 35/2009-2014, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा 31 मार्च, 2011 तक बढ़ा दिया गया है।

3. अब, मालदीव गणतंत्र को, मैसर्स एम एम टी सी लि. के माध्यम से 60 मी. टन दालों के निर्यात की अनुमति दी जा रही है, जो कि उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा लगाए गए निषेध का अपवाद है।

[फा. सं. 01/91/171/59/ए एम 09/एक्सपोर्ट सेल]

अनुप के. पुजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2010

No. 11 (RE-2010)/2009-2014

Subject : Prohibition on export of Pulses - Exemption for export of 60 MTs of pulses to the Republic of Maldives - regarding.

S.O. 2895(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) as amended, read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification No. 15 (RE-2006)/2004-2009, dated 27 June, 2006 read with Notification No. 35/2009-14 dated 30 March, 2010.

2. The export of pulses had been prohibited vide Notification No. 15(RE-2006)/2004-09 dated 27 June 2006 which had initially been imposed for a period of 6 months and is presently extended till 31st March 2011 vide Notification No. 35/2009-2014, dated 30 March, 2010.

3. Now, export of 60 MTs of pulses (Dal) is being allowed for export to the Republic of Maldives through M/s. MMTC Ltd which is an exception to the prohibition imposed by the above notifications.

[F. No. 01/91/171/59/AM 09/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade